

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में अपनी कहानी साझी करने के लिए सभी कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 जून, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की नई बनाई गई, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) (ACCIDA), कलाकारों को अपनी कहानियां साझी करने और सिटी को एक प्रेम पत्र, डिजिटल पोस्टकार्ड पर अपनी कला का प्रचार करने के लिए आमंत्रित कर रही है।

*पोस्टकार्ड प्रोजेक्ट - शेयर योर आर्टिस्ट स्टोरी (The Postcard Project - Share Your Artist Story)* अब, ब्रैम्पटन के कलाकारों, रचनाकारों, संगीतकारों और परफॉर्मर्स के द्वारा अपने काम को डिजिटल पोस्टकार्ड पर डिस्प्ले करने के लिए, उनके द्वारा पुराने या नए डिजिटल, विजुअल आर्टवर्क्स की 20 प्रस्तुतियां स्वीकार कर रहा है। ब्रैम्पटन के बाहर के उन कलाकारों पर विचार किया जाएगा, जिनका काम ब्रैम्पटन से प्रभावित हो और सिटी के साथ उनका कनेक्शन हो। उन कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो ब्रैम्पटन में रहते हैं। इस अवसर के लिए चुने गए कलाकारों को, 250 डॉलर की एकमुश्त कलाकार फीस दी जाएगी।

पोस्टकार्ड प्रोजेक्ट - शेयर योर आर्टिस्ट स्टोरी के हिस्से के तौर पर, ए.सी.सी.आई.डी.ए. (ACCIDA), आपके काम को कलात्मक क्रेडिट के साथ, ए.सी.सी.आई.डी.ए. के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर और आगामी प्रचार तथा मार्केटिंग पहलकदमियों के हिस्से के तौर पर डिजिटल पोस्टकार्ड पर साझा करेगी। कलाकार कई चित्र जमा कर सकते हैं और एक से अधिक चित्र चुने जा सकते हैं, परंतु इसका उद्देश्य, 20 चुने हुए कामों के अंदर ही संभवतया अधिक से अधिक कलाकारों के साथ इस अवसर को साझा करना है।

सिटी के साथ अपने कनेक्शन की पड़ताल करने और यह दर्शाने के लिए कलाकारों का स्वागत है कि उनकी कलात्मक पद्धति कैसे, ब्रैम्पटन के जोश और कहानियों का चित्रण करती है। आर्टवर्क में नया या पुराना मूल काम हो सकता है और इसमें कोई भी मीडियम शामिल हो सकता है, जैसे: फोटोग्राफी, लिखित काम, परफॉर्मंस के दस्तावेज, डिजिटल कोलाज और गैर-डिजिटल काम, हाथ से बनाए चित्रों और पेंटिंग्स सहित, जिन्हें विशेषताओं के मुताबिक डिजिटल किया जा सके। एब्सट्रैक्ट और गैर-रिप्रेजेंटेशन कामों का स्वागत है और कलाकारों को इनके लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इन्हें जमा करने की अंतिम तारीख, 17 जून, 2021 है। जमा किए गए कामों का मूल्यांकन, ए.सी.सी.आई.डी.ए. द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी या सवाल के लिए, कृपया [यहां \(here\)](#) प्रोजेक्ट विवरण देखें। प्रस्तुतियां, सबजेक्ट लाइन: योर आर्टिस्ट स्टोरी (Your Artist Story) के साथ, [accida@brampton.ca](mailto:accida@brampton.ca) पर ईमेल की जा सकती हैं।

### हवाले

“पोस्टकार्ड प्रोजेक्ट - शेयर योर आर्टिस्ट स्टोरी, सिटी के ब्रैम्पटन इन 2040 विजन की हिमायत करता है, ताकि मौजूदा सांस्कृतिक वातावरण को सभी कलाकारों, रचनाकारों, संगीतकारों और परफॉर्मर्स के लिए अवसरों वाली संपन्न कलात्मक स्थिति में बदला जा सके। मैं सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के सभी कलाकारों को सलाह देता हूँ कि वे हमें अपनी कहानियां सुनाएं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए रोमांचक समय है क्योंकि हम लोकल कला और सांस्कृतिक कम्युनिटी के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर रहे हैं। लोकल कलाकारों से उनकी कहानियां सुनने से, एजेंसी को ये महत्वपूर्ण रिश्ते बनाने और साथ ही, ब्रैम्पटन के कलाकारों के काम का प्रचार करने में मदद मिलेगी।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कलाकारों को आमंत्रित करने से, नई बनाई गई, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी को स्थापित होने में मदद मिलेगी, जो महामारी के बाद की दुनिया में लोकल अर्थव्यवस्था की बहाली में मदद के लिए, ब्रैम्पटन में मज़बूत, रचनात्मक और उद्दमी कम्युनिटी की हिमायत करती है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)